



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 2003 (पौष 21, 1924)

No. 2]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 2003 (PAUSA 21, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 नवम्बर 2002

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं. ए-35018/2/2002-प्रशा.2--इस कार्यालय की दिनांक 14 अगस्त, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, एतद्वारा श्री बी. डी. जैन की, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सहायक निदेशक (गो.) के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में विद्यमान शर्तों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि की, दिनांक 4 नवम्बर, 2002 से 3 फरवरी, 2003 तक की 3 महीने की अवधि के लिए अथवा उक्त पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

सं. डीपी/एडी.5/2002/8634/3/51/91-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री राम चन्द्र सेठी, लोक अभियोजक, के. अ. ब्यूरो की 08.11.2002 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैनर्जी
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

दिनांक 20 दिसम्बर 2002

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. डीपी/एडी.5/2002/8680/3/44/93-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री एजाज सलीम खान, लोक अभियोजक, के. अ. ब्यूरो को 03.12.2002

पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
(भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 204-जी.ई.1/176-98/भाग-II--श्री नरेन्द्र देव, उप निदेशक (हिन्दी-II) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.11.2002 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

एनी. जी. मैथ्यू
सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (का.)

सं. 203-जी.ई.1/176-98/भाग-II--भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं :-

सर्वश्री

1. बी. सी. सिंह अधिवार्षिकी दिनांक 30.11.2002 (अपराह्न)

एनी. जी. मैथ्यू
सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (का.)

श्रम मंत्रालय
श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. 5/1/2002-सी.पी.आई.--नवम्बर, 2002 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982 = 100) 2 अंक बढ़ कर 489 (चार सौ नवासी) अंक रहा।

आई. एस. नेगी
उप निदेशक

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. ए-19018/1642/2002-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (ल. उ.), क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, कोलकाता में अधीक्षक, श्री डी. के. पाल को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोलकाता में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न के पद पर दिनांक 1.11.2002 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1645/2002-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (ल. उ.), शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, राउरकेला में अधीक्षक, श्री एन. सी. गोष्ठ्यत को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, कटक में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न के पद पर दिनांक 2.12.2002 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. ए-19018/1646/2002-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (ल. उ.), लघु उद्योग सेवा संस्थान, बंगलौर में अधीक्षक, श्री एस. नागराजा को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत उक्त संस्थान में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 2.12.2002 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 3517ए/ए-32013 (3-सहा. रसा.)/99-19बी--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कुमारी कल्पना क. देशमुख, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) को सहायक रसायनज्ञ ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर तैनाती स्थान सहित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, परिचालन महाराष्ट्र (पश्चिम), पुणे में आगामी आदेशों तक 23.09.2002 (पूर्वाह्न) से प्रभावी नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

मुम्बई-85, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. पीडी/12(1)/2002-आर-III/1576--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री पी. एम. मैथ्यू, सहायक लेखाकार को दिनांक 17 जून, 2002 (पूर्वाह्न) से 10 दिसम्बर, 2002 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. पीडी/7(1)/2002-आर-III/1581--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती लक्ष्मी रामनाथ, सहायक लेखा अधिकारी को उसी पद पर, भारी पानी संयंत्र, कोटा से स्थानान्तरित होने पर दिनांक 11.12.2002 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. 21/3(3)/2002-सीसीएस/47--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एस. मणी, उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (फॉसिलिटीज), कलपाक्कम को दिनांक 09.12.2002 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई में संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) (वेतनमान रु. 12,000-16,500/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन
उप सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 6(2165)/95-प्रशा./1720--राष्ट्रपति, श्रीमती लतिका आर. गोयल, अवर सचिव (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-), परमाणु

ऊर्जा विभाग, मुम्बई को दिनांक 29.11.2002 पूर्वाह्न से 13 दिनों तक की अवधि के लिए कार्यकाल का विस्तार करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
स्टाफ संपर्क अधिकारी

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. केट/प्रशासन/भ.-807(2)/1656--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर द्वारा श्री जी. आर. सिंह, सहायक लेखा अधिकारी को इस केन्द्र में अवकाश-परक रिक्ति में वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 25.06.2002 (पूर्वाह्न) से 26.11.2002 (अपराह्न) तक नियुक्त किया गया है।

अ. पट्टाबिरामन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. केट/प्रशासन/भ.-807(2)/1657--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर द्वारा श्री ए. के. मुखल, सहायक लेखापाल को इस केन्द्र में अवकाश-परक रिक्ति में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 25.06.2002 (पूर्वाह्न) से 26.11.2002 (अपराह्न) तक नियुक्त किया गया है।

अ. पट्टाबिरामन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

सं. ए.एम.डी.-4/2/2002-भर्ती/1803--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई की अधीनस्थ यूनिट, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में कार्यरत निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों की उनके नाम के सामने लिखित तारीख को आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी-एच के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/डॉ.				
1.	नटराजन, आर. (डॉ.)	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एच	वैज्ञा. अधि.-एस.सी	01.08.2002
2.	गुप्ता, के. आर.	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एच	वैज्ञा. अधि.-एस.सी	01.08.2002
3.	अरोरा, एच. सी. (डॉ.)	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एच	वैज्ञा. अधि.-एस.सी	01.08.2002
4.	सक्सेना, वी. पी.	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एच	वैज्ञा. अधि.-एस.सी	01.08.2002

के. दामोदरन
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

सं. ए.एम.डी.-4/2/2002-भर्ती/1804--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई की अधीनस्थ यूनिट, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में कार्यरत निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों की इनके नाम के सामने लिखित तारीख को आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी-जी के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री/डॉ. डोगरा, डी. पी.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एस.सी	01.08.2002
2.	सिंह, पी. पी.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एस.सी	01.08.2002
3.	सुरेन्द्र सागर (डॉ.)	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एस.सी	01.08.2002
4.	नावले, ए. एस.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एस.सी	01.08.2002
5.	रमेश बाबू, पी. वी. (डॉ.)	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
6.	चन्द्रशेखरन, एस.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
7.	मूर्ति, डी. एस. आर. (डॉ.)	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
8.	भैरम, सी. एल.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
9.	कट्टी, वी. जे.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2002
10.	नन्दा, एल. के.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2002
11.	नरसिम्हन, डी. (डॉ.)	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. सहा.-बी	01.08.2002
12.	रघुवंशी, एस. एस. (डॉ.)	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
13.	राय, ए. के.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
14.	मोहन्ती, आर.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
15.	भीष्म कुमार	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
16.	सच्चान, ए. एस.	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2002
17.	मजुमदार, अमित	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-जी	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2002

के. दामोदरन
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुम्बई-400020, दिनांक 3 दिसम्बर 2002

सं. एफ.-301-एडी(एटी)/2002--श्री आर. एन. मिश्रा, कार्यकारी अधिकारी (वैय.), अपट्रान इंडिया लिमिटेड, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-2), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 18.11.2002 (पूर्वाह) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

वी. डांगजाथंग
अध्यक्ष

सं. एफ.-301-एडी(एटी)/2002--श्रीमती वी. एम. शोभा, निजी सहायक "ख", कृत्रिम प्रज्ञा एवं यंत्र मानव विज्ञान केन्द्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बंगलौर को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-2), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 15.11.2002 (पूर्वाह) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

वी. डांगजाथंग
अध्यक्ष

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हेन्डफेब इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं. 560/05/32852/7115--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स हेन्डफेब इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सऊद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एससीआई बिल्डर्स एण्ड
डेवलपर्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं. 560/3/88794/7127--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स एससीआई बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सऊद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हेल्थआनसर (इण्डिया) प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं. 560/3/55/105484/7230--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स हेल्थआनसर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सऊद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विपुल फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं. 560/3/55/078744/7150--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स विपुल फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सऊद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. जी. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं. 560/3/05/24198/7154--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स एच. जी. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सऊद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एचएसएमएल ब्रेवरीज़ लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं. 560(3)/05/32481/7157--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एचएसएमएल ब्रेवरीज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सऊद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काकीनाडा एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560(3)/55/97073/7688--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स काकीनाडा एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सरुद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शक्ति फैन्रीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. 560/3/55/79029/7801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शक्ति फैन्रीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सरुद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बायोसर्व (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. 560/3/55/79465/7723--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स बायोसर्व (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सरुद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोहन डीके प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. 560(3)/55/29343/7806--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोहन डीके प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सरुद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रॉयल ड्यू डोप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. 560(3)/55/91265/7877--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रॉयल ड्यू डोप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सरुद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. के. लॉटरी एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. 560/3/55/83123/7812--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बी. के. लॉटरी एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सरुद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डब्ल्यू इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. 560/3/55/75775/7859--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स डब्ल्यू इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सऊद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेंगरसन डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. 560/55/099168/7866--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स रेंगरसन डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सऊद अहमद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फलेक फाइनैन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 नवम्बर 2002

सं. 560/55-43143/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फलेक फाइनैन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोवा बैट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-5004/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नोवा बैट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उपहार फाइनैन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-4023/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उपहार फाइनैन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनिल मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-8981/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनिल मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इयोरसियोर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-41149/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इयोरसियोर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भगवती सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-49885/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भगवती सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रान्स इण्डिया लैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-69985/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ट्रान्स इण्डिया लैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गॉड फियरिंग चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-21908/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स गॉड फियरिंग चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अकसरा एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-7828/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अकसरा एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कम्प्युटलोग ड्रिलिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-44901/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कम्प्युटलोग ड्रिलिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिधी सिधी चिट फण्ड एण्ड फाईनैन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-15061/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिधी सिधी चिट फण्ड एण्ड फाईनैन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मथारू मशीनरी मैनुफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-36911/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मथारू मशीनरी मैनुफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

जाती है कि मैसर्स कन्वेन्ट चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्टर डिजाइन कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-27547/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्टर डिजाइन कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देव दीप चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-20848/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स देव दीप चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एरिक्स कार्गो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-31835/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एरिक्स कार्गो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शाया गया है तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टिन कन्टेनर्स एण्ड प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-5705/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टिन कन्टेनर्स एण्ड प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पीएलएस ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-49841/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पीएलएस ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कन्वेन्ट चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-37530/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरोरा कन्स्ट्रक्शंस एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-14442/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अरोरा कन्स्ट्रक्शंस एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मल्टी ट्रांसफर डेकोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-43083/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मल्टी ट्रांसफर डेकोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. के. जेम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-47508/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बी. के. जेम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रेट इण्डो इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-5450/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रेट इण्डो इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कसार इन्जीनियर्स एण्ड टेक्नोक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-56624/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कसार इन्जीनियर्स एण्ड टेक्नोक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेन्टीनल ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-44051/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेन्टीनल ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महामाया फिनवेस्ट एण्ड मेहकिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-69022/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महामाया

फिनवेस्ट एण्ड वेहिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डार्ट लाइन एक्सप्रेस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-51004/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डार्ट लाइन एक्सप्रेस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बायफर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-15183/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बायफर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साहनी लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-17855/OG1/452/6898--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साहनी लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बोनस फाइनैन्सियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-66195/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बोनस फाइनैन्सियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लालसन कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-22771/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लालसन कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोमती फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-39158/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोमती फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसएस सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-65203/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एसएस सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आशिमा सी फूड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-35220/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आशिमा सी फूड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिग वैल्यू फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-52564/OG1/452/6945--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिग वैल्यू फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रचना ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-66481/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रचना ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिग वैल्यू फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-52564/OG1/452/6944--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिग वैल्यू फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैगा फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-67961/OG1/452/6947--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सैगा फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जिविगो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-60076/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिविगो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेस शूज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-57771/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेस शूज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोबल लिक्वोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-22759/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोबल लिक्वोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनी टेक इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-55360/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मनी टेक इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खैतान होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-49055/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स खैतान होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनी टेक कंसलटैन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-53361/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मनी टेक कंसलटैन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनीटेक बिजनेस स्कूल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-59430/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मनीटेक बिजनेस स्कूल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोन्धो बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-49212/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोन्धो बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चंदरनगर फिल्टरेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-14406/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चंदरनगर फिल्टरेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरावली चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-26061/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरावली चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुरजीत इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-38658/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुरजीत इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बूस्ट चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-29171/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स ब्रूस्ट चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उत्तम कम्प्यूटर कन्ट्रोलस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-38205/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स उत्तम कम्प्यूटर कन्ट्रोलस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दर्शगुन इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-23145/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दर्शगुन इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्ड कोस्ट फैशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-47966/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोल्ड कोस्ट फैशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. जे. एम. सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-37749/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. जे. एम. सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोटेक्स इलैक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-21576/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रोटेक्स इलैक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कैरियोन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-45533/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कैरियोन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रीन फील्ड एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-45532/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रीन फील्ड एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्या एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-33168/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर्या एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गेन वेल फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-14438/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गेन वेल फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. जी. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-36421/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स जी. जी. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोहिन्दर सिंह एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-46473/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोहिन्दर सिंह एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओ. पी. फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-45531/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओ. पी. फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. एल. बी. कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-60787/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. एल. बी. कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिल्वरलाइन कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-58004/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिल्वरलाइन कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी लाइन एंजिनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-57683/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पी लाइन एंजिनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ज्योति ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-61402/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ज्योति ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यानिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-54972/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यानिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राज राजेश्वरी क्रेडिट एण्ड सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. 560/55-71696/OG2/445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राज राजेश्वरी क्रेडिट एण्ड सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मावल लीजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. एल.सी./560(3)/18787--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मावल लीजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अगेट कामर्शियल एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 21 दिसम्बर 2002

सं. एल.सी./560(3)/16564--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अगेट कामर्शियल एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अगेट क्रेडिट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. एल.सी./560(3)/23785--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अगेट क्रेडिट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड एलाइड
मैन्यूफैक्चर्स (प्रा.) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. एल.सी./560(3)/3629--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड एलाइड मैन्यूफैक्चर्स (प्रा.) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टाइम्स म्यूचुअल बेनीफिट्स
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. एल.सी./560(3)/16893--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टाइम्स म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ए. ई. आई. मशीन्स प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. आर. ओ. सी./560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स ए. ई. आई. मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सांघी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स सांघी

होटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स हरभजन पैकेजिंग्स प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स हरभजन पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एचआरबी इन्फोटेक लिमिटेड
के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस./16196--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स एचआरबी इन्फोटेक लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एमपीजे कैपिटल सिक्योरिटीज
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/12387--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स एमपीजे कैपिटल सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स पदम सिंह आरचार्डस एण्ड फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/7309--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स पदम सिंह आरचार्डस एण्ड फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एलेकजैण्डर बैटरीज (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/10348--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स एलेकजैण्डर बैटरीज (इण्डिया) लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एएमएस फिनकोन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/12470--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स एएमएस फिनकोन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स चौधरी कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस./9445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स चौधरी कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा मैसर्स टोपॉज शेविंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मामले में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 नवम्बर 2002

शुद्धि-पत्र

विषय--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत कम्पनी के नाम काट दिए जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना सं. टी.एस./560/प्रमुख फाइल-2, विज्ञापन दिनांक 10-5-2002।

सं. टी.एस./560/प्रमुख फाइल-2--कृपया कम्पनी का नाम मैसर्स टोपॉज शेविंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड पढ़ा जाए, को दिनांक 15-06-2002 के प्रकाशन में क्रमांक संख्या-24 में रखना चाहिए।

जी. मुखोपाध्याय
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर-560034, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं.560(5)/एस.सं./2000-01--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	22710	मैसर्स संगमेश्वर मेनिफिन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	22987	मैसर्स नाट एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
3.	23018	मैसर्स नोबू फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
4.	23519	मैसर्स फाइन फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	23619	मैसर्स वाफेकोन इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
6.	24376	मैसर्स किंगफिशर फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
7.	24633	मैसर्स किंगफिशर स्पोर्ट्स गियर प्राईवेट लिमिटेड
8.	26003	मैसर्स बी. जी. के. लीजिंग एण्ड इनवेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
9.	26488	मैसर्स किंगफिशर नेट लिमिटेड
10.	26489	मैसर्स ब्ल्यू पर्ल इन्टरनेट ग्रुप लिमिटेड
11.	26490	मैसर्स किंगफिशर नेटवर्क्स लिमिटेड

दुर्गा प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनिलिक्स्टन फिन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं. 58/44286/560/4322--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एनिलिक्स्टन फिन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. चन्द्रा
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोजित लॉक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. 129/57947/560/125433--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोजित लॉक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. चन्द्रा
कम्पनियों का उप रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अविराज सेक्यूरिटीज एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. 130/63665/560/125436--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अविराज सेक्यूरिटीज एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. चन्द्रा
कम्पनियों का उप रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्क्रीम के अंतर्गत आवेदन और मैसर्स रिक्स एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 2422/43971/560/एफटीएस/126458--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) तथा भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र संख्या 1.5.2000 सीएल. वी के परिपत्र संख्या 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

यदि प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो मैसर्स रिक्स एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. ए. विजयन मेनन
उप-कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्क्रीम के अंतर्गत आवेदन और मैसर्स अपर्णा डायकेम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 2420/38875/560/एफटीएस/126461--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) तथा भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र संख्या 1.5.2000 सीएल. वी के परिपत्र संख्या 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

यदि प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो मैसर्स अपर्णा डायकैम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. ए. विजयन मेनन
उप-कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत आवेदन और मैसर्स इविक्स फार्मा प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 2421/45880/560/एफटीएस/126459--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) तथा भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र संख्या 1.5.2000 सीएल.बी के परिपत्र संख्या 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

यदि प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो मैसर्स इविक्स फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. ए. विजयन मेनन
उप-कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ईबीज सोल्यूशन्स लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 128/123286/560/126464--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ईबीज सोल्यूशन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. ए. विजयन मेनन
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत आवेदन और मैसर्स आनलुकर कम्प्युनिकेशन्स एण्ड एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

सं. 2419/41283/560/एफटीएस/126465--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) तथा भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र संख्या 1.5.2000 सीएल.बी के परिपत्र संख्या 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

यदि प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो मैसर्स आनलुकर कम्प्युनिकेशन्स एण्ड एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. ए. विजयन मेनन
उप-कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 22nd November 2002

No. A. 35018/2/2002-Admn. II.—In continuation of this office Notification of even number dated 14-08-2002, the Chairman, Union Public Service Commission hereby extends the period of deputation of Shri B. D. Jain in the post of Assistant Director (Confidential) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 in the office of Union Public Service Commission for a period of 3 months w.e.f. 04-11-2002 to 03-02-2003 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier on the existing terms and conditions.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 19th December 2002

No. DPAD5/2002/8634/3/51/91-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Rama Chandra Sethi, PP. CBI as Senior Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 8-11-2002 and until further orders.

S. D. BATHAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

The 20th December 2002

No. DPAD5/2002/8680/3/44/93-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Eiaz Salim Khan, PP. CBI as Senior Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 3-12-2002 and until further orders.

S. D. BATHAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA)

New Delhi-110002, the 23rd December 2002

No. 6571-GE.I/176-98/Pt. II.—Shri Narendra Dev. Deputy Director (Hindi-II) has retired from Government service on attaining the age of superannuation with effect from 30-11-2002 (AN).

ANNIE G. MATHWU
Asstt. Comptr. and Auditor General (P)

No. 6573—GS-I/76-98/Pt. II.—The following IA & AS officer has retired on superannuation from Government service from the date shown against his name.

1. Shri B. C. Singh—Retired on superannuation with effect from 30-11-2002 (AN).

ANNIE G. MATHWU
Asstt. Comptr. and Auditor General (P)

MINISTRY OF LABOUR

LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 31st December 2002

No. 5/1/2002-CPI.—The All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers in base 1989=100 has increased by 2 points to stand at 489 (four hundred & eighty nine) for the month of November, 2002.

I. S. NPGI
Dy. Dir.

4-406 GI/2002

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 20th December 2002

No. A-19018/1642/2002-Admn. (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri D. K. Pal, Superintendent, Regional Testing Centre, Kolkata as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) officiating under Small Industry Development Organisation in Small Industries Service Institute, Kolkata with effect from the forenoon of 1-11-2002 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1645/2002-Admn. (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri N. C. Gochhayat, Superintendent, Branch Small Industries Service Institute, Rourkela as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) officiating under Small Industry Development Organisation in the Small Industries Service Institute, Cuttack with effect from the forenoon of 2-12-2002 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

The 23rd December 2002

No. A-19018/1646/2002-Admn. (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri S. Nagaraja, Superintendent, Small Industries Service Institute, Bangalore as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 under Small Industry Development Organisation in the same Institute with effect from the forenoon of 2-12-2002 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

KHAN MANTRALAYA

(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 23rd December 2002

No. 3517A/A-32013 (3-Asstt. Chemist)/99/19B.—The DG GSI is pleased to approve the appointment of Mm. Kalpana K. Deshpande, STA (Chem) on promotion to the post of Asstt. Chemist Grade-I in the same department on pay according to rules in the pay scale of Rs. 7400-240-12,600/- in an officiating capacity w.e.f. 23-10-2002 (F/M) with place of posting at GSI, operation Maharashtra (W), Pune until further orders.

S. K. BHATIA
Sr. A.O. for DG, GSI

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)

Mumbai-400085, the 24th December 2002

Ref. BHA/1201/2002-R-III/1576.—The Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri P. M. Mathew, Asstt. Accountant as Asstt. Accounts Officer in the Bhabha Atomic Research Centre on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 6400-200-10500, with effect from 17-06-2002 (F/M) to 10-12-2002.

K. C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

The 26th December 2002

No. PD/7(1)/2002-R-III/1581.—Controller, BARC appoints Smt. Laxmi Ramnath, Asstt. Accounts Officer, on transfer from Heavy Water Plant, Kota in the same capacity, as Asstt. Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/-, in this Research Centre w.e.f. the forenoon of 11-12-2002 until further orders.

K. C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

(DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY)

Mumbai-400 001, the 26th December 2002

No. 21/3(3)/2002-CCS/47.—The President is pleased to appoint Shri S. Mani, Dy. Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000—15200/-), Bhabha Atomic Research Centre (Facilities), Kalpakkam, of this Department as Joint Controller (F&A) Scale of pay Rs. 12000—16500/- in the Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai with effect from the forenoon of 09-12-2002 until further orders.

UMA MAHADEVAN
Dy. Secy.

Mumbai 400 001, the 29th December 2002

No. 6(2165)/95/Adm/1720.—The President is pleased to extend the tenure of Smt. Lathika R. Goel, Under Secretary

(Scale of pay Rs. 10,000 325-15,200/-), Department of Atomic Energy, Mumbai, for a period of 13 days from the forenoon of November 29, 2002.

M. VENUGOPALAN
Staff Relations Officer

CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 20th December 2002

No. CAT/Admn/R-807(2)/1656.—Director, Centre for Advanced Technology, Indore had appointed Shri G. R. Singh Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- on ad hoc basis with effect from the forenoon of June 25, 2002 (F/N) to November 26, 2002 (A/N), against leave vacancy.

A. PATTABIRAMAN
Chief Administrative Officer

No. CAT/Admn/R-807(2)/1657.—Director, Centre for Advanced Technology, Indore had appointed Shri A. K. Muchhal, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on ad hoc basis with effect from the forenoon of June 25, 2002 (F/N) to November 26, 2002 (A/N), against leave vacancy.

A. PATTABIRAMAN
Chief Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad - 500 016, the 16th December 2002

No. AMD-1/2/2002-Rect/1803.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research Hyderabad of the Department of Atomic Energy, Mumbai to the grade of Scientific Officer-H carrying the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 in the same Directorate in an officiating capacity on the dates shown against them, until further orders :

Name of the Officer	Present Grade	Promoted to Grade	Substantive Post held	Date of assumption of Charge
(S/Shri)				
Natarajan R. Dr.	SO-G	SO-H	SO-SC	01-08-2002
Gupta, K. R.	SO-G	SO-H	SO-SC	01-08-2002
Arora H. C. Dr.	SO-G	SO-H	SO-SC	01-08-2002
Saxena V. P.	SO-G	SO-H	SO-SC	01-08-2002

K. DAMODARAN
Chief Administrative & Accounts Officer

No. AMD-4/2/2002-Rectt./1804—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research Hyderabad of the Department of Atomic Energy, Mumbai to the grade of Scientific Officer-H carrying the scale of pay of Rs. 16400-450- 20000 in the same Directorate in an officiating capacity on the date shown against each until further order :—

Name of the officer	Present Grade	Promoted to Grade	Substantive Post held	Date of assumption of Charge
(S/Shri)				
Dogra D. P.	SO-F	SO-G	SO-SC	01-08-2002
Singh P. P.	SO-F	SO-G	SO-SC	01-08-2002
Surendra Sagar (DR.)	SO-F	SO-G	SO-SC	01-08-2002
Navale A.S.	SO-F	SC-G	SO-SC	01-08-2002
Ramesh Babu P.V. (DR.)	SO-F	SO-G	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Chandrasekaran S.	SO-F	SO-G	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Murthy D.S.R. (DR.)	SO-F	SO-G	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Bhairam C. L.	SO-F	SO-G	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Katti V. J.	SO-F	SO-G	GRP-B(SCIENT)	01-08-2002
Nanda L. K.	SO-F	SO-G	GRP-B(SCIENT)	01-08-2002
Narasimhand (DR.)	SO-F	SO-G	SA-B	01-08-2002
Raghuwanshi S.S. (DR.)	SO-F	SO-G	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Rai A.K.	SO-F	SO-G	GRP-A(SCIENT)	01-08-2001
Mohanty R.	SO-F	SO-G	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Baishma Kumar	SO-F	SO-G	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Sachan A.S.	SO-F	SO-G	GRP-B(SCIENT)	01-08-2002
Majumdar Amit	SO-F	SO-G	GRP-B(SCIENT)	01-08-2002

K. DAMODARAN
Chief Administrative & Accounts Officer

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400 020, the 3rd December 2002

No. F. 301-Ad(AT)/2002.—Shri R. N. Mishra, Executive Officer (Pers.), Uptron India Limited, Lucknow is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Jaipur Bench, Jaipur in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 18-11-2002 (F/N) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05-01-1994 as amended from time to time.

V. DONGZATHANG
President

No. F. 301-Ad(AT)/2002.—Smt. V. M. Shobha, Personal Assistant, 'B', Centre for Artificial Intelligence and Robotics, Defence Research & Development Organisation, Bangalore is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Bangalore Benches, Bangalore in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 15-11-2002 (F/N) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, (Deptt. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05-01-1994 as amended from time to time.

V. DONGZATHANG
President

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Handjob India Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th November 2002

No. u/s. 560(3)/05/32852/7115—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Handjob India Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SCI Builders & Developers Ltd.

New Delhi-110003, the 26th November 2002

No. u/s. 560(3)/55/88794/7129—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SCI Builders & Developers Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Health Answers (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th November 2002

No. u/s. 560(3)/55/105484/7230—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Health Answers (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vipul Finicap Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th November 2002

No. u/s. 560(3)/55/78744/7150—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof, the name of M/s. Vipul Finicap Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. H. G. Investments Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th November 2002

No. u/s. 560(3)/05/24198/7154—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. H. G. Investments Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. HSML Breweries Ltd.

New Delhi-110003, the 26th November 2002

No. u/s. 560(3)/05/32481/7157—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. HSML Breweries Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kakinada Energy Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/97073/7688—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Kakinada Energy Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bioserve (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 24th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/79465/7723—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bioserve (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Royal Dew Drops Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 27th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/91265/7877—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Royal Dew Drops Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shakti Fabricators Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 27th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/79029/7801—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Shakti Fabricators Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohan Hokke Ltd.

New Delhi-110003, the 27th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/29343/7806—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof,

the name of M/s. Mohan Hokke Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B.K. Lottery Agency Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 27th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/83123/7812—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. B.K. Lottery Agency Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragans Care Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 27th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/85874/7854—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Pragans Care Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. WF Estates Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 27th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/75775/7859—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. WF Estates Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rangarson Distilleries Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 27th December 2002

No. u/s. 560(3)/55/099168/7864—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rangarson Distilleries Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SAUD AHMAD
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Flak Finance Pvt. Ltd.

New Delhi-110003 the 22nd November 2002

No. 560/55-43143/OG2/445/6764 Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flak Finance (Pvt.) Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Novo Batteries Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 550/55-5001/OG2-452 6719—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Novo Batteries Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Udhar Finance Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-4023/OG2/445/6797—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.

Udhar Finance Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anil Machine Tools Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 550/55-3021/OG2/445/5325—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anil Machine Tools Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alliance Computers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-44483/OG2/445/6828—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alliance Computers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Paasavee India Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-18512/OG2/445 6331—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paasavee India Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Victory Chit Funds Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-18909/OG2/445/6816—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Victory Chit Funds Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdhani Gases Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-9521/OG2/445/6819—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajdhani Gases Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nemtex Agencies Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-15335/OG2/445/6822—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nemtex Agencies Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tania Finance & Leasing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-46557/OG2-445/6773—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Tania

Finance & Leasing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Compshan Datamatics Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-28342/OG2/415/6775—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Compshan Datamatics Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alliance Body Care Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-47407/OG2-445/6779—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alliance Body Care Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. PTI Audio-Visual Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-49313/OG2/445/6782—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. PTI Audio-Visual Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. R. Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-24980/OG2/445/6758—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. R. Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. R. Travels and Tours Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-29013/OG2/445/6752—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. R. Travels and Tours Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jolly Associates Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-37405/OG2/445/6755—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jolly Associates Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adler Overseas Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-42203/OG2/445/6758—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Adler Overseas Pvt. Ltd. has this day been

struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dadi Holding and Investments Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-47943/OG2/445/6761—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dadi Holding and Investments Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eversure Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-41149/OG2/445/6767—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eversure Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagvati Securities Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-49885/OG2/445/6770—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhagvati Securities Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trans India Leathers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-69985/OG1-452/6854—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Trans India Leathers Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. God Fearing Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-21908/OG2/445/6785—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. God Fearing Chit Fund Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aksara Advertising Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-7828/OG2/445/6788—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aksara Advertising Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Computalog Drilling Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-44901/OG2/445/6791—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Computalog Drilling Services Pvt. Ltd. has this day
5-406 GI/2002

been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ridhi Sidhi Chit Fund &
Finance Co. Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-15061/OG2/445/6794—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ridhi Sidhi Chit Fund & Finance Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Matharu Machinery Manufacturers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-36911/OG2/445/6800—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Matharu Machinery Manufacturers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dev Deep Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-20848/OG2/445/6803—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dev Deep Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tin Containers & Printers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55/5735/OG2/445/6806—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tin Containers & Printers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Convent Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 12th December 2002

No. 560/55-37530/OG2/445/6809—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Convent Chit Fund Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Inter Design Consultants Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 13th December 2002

No. 560/55-27547/OG2/445/6844—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Inter Design Consultants Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Airex Cargo Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 13th December 2002

No. 560/55-31835/OG1-452/6872—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of

M/s. Airex Cargo Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. PLS Tubes Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 13th December 2002

No. 560/55-49841/OG2/445/6841—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. PLS Tubes Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arora Contractors and Builders Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 13th December 2002

No. 560/55-14442/OG1-452/6851—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Arora Contractors and Builders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Multi Transfer Decors Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 13th December 2002

No. 560/55-43083/OG2/445/6838—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Multi Transfer Decors Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B.K. Gems Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 13th December 2002

No. 560/55-47508/OG1-452/6882—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. B. K. Gems Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA

Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Great Indo Engineering Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 13th December 2002

No. 560/55-5450/OG1-452/6885—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Great Indo Engineering Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA

Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kashaar Engineers & Technocrats Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 13th December 2002

No. 560/55-56624/OG1-452/6857—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Kashaar Engineers & Technocrats Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA

Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sentinel Overseas Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 16th December 2002

No. 560/55-44051/OG1-452/6876—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof,

the name of M/s. Sentinel Overseas Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA

Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahamaya Finvest & Vehicles Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 17th December 2002

No. 560/55-69022/OG1-452/6912—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahamaya Finvest & Vehicles Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA

Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dart Line Express Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 17th December 2002

No. 560/55-51004/OG1-452/6915—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Dart Line Express Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R.K. DALMIA

Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Byfar India Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 17th December 2002

No. 560/55-15183/OG1-452/6995—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Byfar India Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA

Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sawhney Laboratories Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 17th December 2002

No. 560/55-17855/OG1-452/6898—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sawhney Laboratories Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bonus Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2002

No. 560/55/66195/OG1-452/6919—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bonus Financial Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lallson Consultants Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2002

No. 560-55/22771/OG1-452/6932—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lallson Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies,
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gomti Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2002

No. 560-55/39158/OG1-452/6929—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof

the name of M/s. Gomti Pharmaceuticals Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SAS Securities Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2002

No. 560-55/65203/OG1-452/6925—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. SAS Securities Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashima Sea Food Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2002

No. 560-55/35220/OG1-452/6991—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Ashima Sea Food Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Big Value Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2002

No. 560-55/52564/OG1-452/6945—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof. M/s. Big Value Financial Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rachna Travels Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2002

No. 560/55-66481/OG2/445/6939—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rachna Travels Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Big Value Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2002

No. 560/55-52564/OG1-452/6944—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Big Value Financial Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saiga Finlease Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2002

No. 560/55-67961/OG1-452/6947—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saiga Finlease Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zivigo Exports Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-60076/OG2/445/6953—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.

Zivigo Exports Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pace Shoes Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-57771/OG2-445/6950—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pace Shoes Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Noble Liquors Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-22759/OG2/445/6956—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Noble Liquors Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Money Tech Informatics Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-53360/OG1-452/6979—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Money Tech Informatics Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khajtan Home Products Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-49055/OG1-452/6973—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Khajtan Home Products Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Money Tech Consultancy Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-53361/OG1-452/6982—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Money Tech Consultancy Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Moneytech Business School Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-59430/OG1-452/6976—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Moneytech Business School Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sondhi Batteries Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-49212/OG1-452/6988—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Sondhi Batteries Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chandernagar Filterates Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2002

No. 560/55-14406/OG1-452/6985—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Chandernagar Filterates Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aravali Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 22nd December 2002

No. 560/55-26061/OG2/445/6712—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aravali Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surjeet Electronics Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 23rd December 2002

No. 560/55-38658/OG2/445/7001—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surjeet Electronics Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Boost Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-29171/OG2/445/7004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Boost Chit Fund Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uttam Computer Controls Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-38205/OG1-452/7008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Uttam Computer Controls Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Darshgun Electricals Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-23145/OG2/445/7011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Darshgun Electricals Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gold Coast Fashion Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-17966/OG2/445/7014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gold Coast Fashion Pvt. Ltd. has this day been

struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SJM Surveyors Private Limited

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-37749/OG2/445/7017—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. SJM Surveyors Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Protex Electricals Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-21575/OG2/445/7020—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Protex Electricals Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Carryon Exports Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/5-45533/OG2/445/7023—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Carryon Exports Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Field Agro Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-45532/OG2/445/7026—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Green Field Agro Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arya Exports Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55/33168/OG2/445/7029—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arya Exports Pvt. Ltd. has been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gain Well Finance and Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-14438/OG2-445/7032—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gain Well Finance and Chit Fund Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gee Gee Associates Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-36421/OG2-445/7035—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act 1956, that the name of M/s. Gee Gee Associates Pvt. Ltd. has this day been

struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohinder Singh and Company Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55/46473/OG1-452/7038—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Mohinder Singh and Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. O. P. Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 23rd December 2002

No. 560/55-45531/OG2/445/7041—Notice is given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. O. P. Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. BLB Capital Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55/60787/OG2/445/7057—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. BLB Capital Services Pvt. Ltd. has been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tania Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-50427/OG2/445/7060—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tania Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanakdhara Securities & Financial Services
Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-55255/OG2/445/7063—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanakdhara Securities & Financial Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanakdhara Jewels Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-55242/OG2-445/7066—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanakdhara Jewels Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanakdhara Organics Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-56039/OG2/445/7069—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.

6-406 G1/2002

Kanakdhara Organics Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Phidelity Exports Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-55122/OG2/445/7072—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Phidelity Exports Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Festive Wears Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-56041/OG2/445/7075—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Festive Wears Pvt. Ltd. has been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neural Automate Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-60850/OG2-445/7079—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neural Automate Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Silverline Capital Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-53031/OG2/445/7082—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 550 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Silverline Capital Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pee Line Agencies Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-57683/OG2/445/7087—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pee Line Agencies Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jyoti Overseas Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-61402/OG2/445/7090—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act 1956 that the name of M/s. Jyoti Overseas Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yaniya Exports Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-54972/OG2/445/7093—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yaniya Exports Pvt. Ltd. has this day been struck

off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Rajeshwari Credit & Securities
Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 26th December 2002

No. 560/55-71696/OG2/445/7096—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raj Rajeshwari Credit & Securities Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mawal Leasing & Finance Company
Pvt. Ltd.

Kanpur-203001, the 20th December 2002

No. 560(3)/LC/8797/6024—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 550 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Mawal Leasing & Finance Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Azite Commercial & Financial Services
(India) Ltd.

Kanpur-208001, the 21st December 2002

No. 560 (3)/LC/16564/6231—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Azite Commercial & Financial Services (India) Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Agate Credits Ltd.

Kanpur-208001, the 24th December 2002

No. 550(3)/LC/23781/6235—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Agate Credits Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pharmaceuticals and Allied Manufactures
(P) Ltd.

Kanpur-208001, the 25th December 2002

No. 560(3)/LC/3529/6400—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pharmaceuticals and Allied Manufactures (P) Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Times Mutual Benefits Ltd.

Kanpur-208001, the 26th December 2002

No. 560 (3) / LC / 16393 / 6405 Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Times Mutual Benefits Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AED Machines Pvt. Ltd.

Jaipur, the 24th December 2002

No. ROC/123/253/ 5113111—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof M/s. AED Machines Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sangli Hotels Pvt. Ltd.

Jaipur, the 25th December 2002

No. ROC/550/2005—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sangli Hotels Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harbajan Packagings Pvt. Ltd.

Jaipur, the 25th December 2002

No. ROC/550/10000/3229—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harbajan Packagings Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. HRB Infotech Ltd.

Jaipur, the 25th December 2002

No. ROC/561/15195/3219—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. HRB Infotech Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MPT Capital Securities Pvt. Ltd.

Jaipur, the 26th December 2002

No. ROC/JPR/FTS/560/12387/3209—Notice is hereby given Pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s MPT Capital Securities Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padam Singh Orchards and Farms Pvt. Ltd.

Jaipur, the 26th December 2002

No. ROC/JPR/FTS/560/7300/3214—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Padam Singh Orchards and Farms Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alexander Batteries Ltd.

Jaipur, the 26th December 2002

No. ROC/JPR/FTS/560/10348/3198—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Alexander Batteries Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AMS Fazon Pvt. Ltd.

Jaipur, the 26th December 2002

No. ROC/JPR/FTS/560/1217/3203—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. AMS Fazon Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Country Capital Services Pvt. Limited

Jaipur, the 26th December 2002

No. ROC/560/0445—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Country Capital Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Topaz Shaving Products Limited

Kolkata-700020, the 22nd November 2002

Subject :—Notification No. TS/560/Master File-2, Advertisement dated 10-05-2002 regarding striking off the name of the company under section 560 of the Companies Act, 1956.

No. TS/560/Master File-2—The name of the company may please be read M/s. Topaz Shaving Products Ltd. should be inserted in Sl. No. 24 of the publication dated 15-06-2002.

G. MUKHOPADHYAY
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following companies

Bangalore-560034, the 27th December 2002

No. RRR/FT3S/560(5)/2000-01—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. The following Companies has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved

Sr. No. Name of the Company

22710 M/s. Sangameshwar Multifin Services Pvt. Ltd.

22987 M/s. Nat Agencies Pvt. Ltd.

23018 M/s. Nibu Finance Pvt. Ltd.

23519 M/s. Fine Feeds Pvt. Ltd.

23619 M/s. Biocon International Pvt. Ltd.

24376 M/s. Kingfisher Finvest Pvt. Ltd.

24533 M/s. Kingfisher Sports Gear Pvt. Ltd.

25003 M/s. B.G.K. Leasing and Investment Pvt. Ltd.

25488 M/s. Kingfisher Net Ltd.

26489 M/s. Blue Pearl Internet Group Ltd.

26190 M/s. Kingfisher Net Works Ltd.

T.S.D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Elphinstone Pints Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 19th June 2002

No. 58/44286/560/4322—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Elphinstone Pints Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Sobhet Locks Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 24th December 2002

No. 129/57947/560/125433—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, M/s. Sobhet Locks Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Aviraj Securities and Trade Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 24th December 2002

No. 130/63665/560/125436—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aviraj Securities and Trade Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Rinks Enterprises Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 7th December 2002

No. 2422/43971/560/FTS/126458—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20/09/2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Rinks Enterprises Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. A. VIJAYAN MENON
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Aparna Due Chem Products Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 17th December 2002

No. 2420/38875/560/FTS/126461—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1-5-2000-CL. V dated 20-9-2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Aparna Due Chem Products Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. A. VIJAYAN MENON
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Evisco Pharma Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 17th December 2002

No. 2421/45830/560/FTS/126459—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20-9-2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Evisco Pharma Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. A. VIJAYAN MENON
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. e Biz Solutions Ltd.

Mumbai 400002, the 17th December 2002

No. 128/123286/560/126464—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. e Biz Solutions Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

V. A. VIJAYAN MENON
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Outlooker Communications & Advertising
Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 17th December 2002

No. 2419/11283/560/FTS/126465—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20/9/2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Outlooker Communications & Advertising Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. A. VIJAYAN MENON
Registrar of Companies
Maharashtra